

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, MARCH 16, 2024



VALLABHBHAI PATEL CHEST INSTITUTE

University of Delhi, Delhi-110007

Tel.: 011-27402400, 27667102, Fax No. 011-27666549

Applications are invited for the post of the Research Associate - II (one) in DST-SERB sponsored project "Targeted Exosomes mediated cellular delivery: A potential approach for vaccine development" under Dr. Madhu Khanna, Department of Microbiology (Virology Unit), V. P. Chest Institute, University of Delhi, Delhi-110007.

For detail, please visit Institute website: www.vpci.org.in. Any further addendum/corrigendum shall be uploaded on the institute's website only.

Dr. Madhu Khanna
Principal Investigator

CBC 17169/12/0024/2324



हिन्दुस्तान

www.livehindustan.com

नई दिल्ली
शनिवार
16 मार्च 2024



वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट

दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली- 110007

फोन: 011-27402400, 27667102

फैक्स नं. 011-27666549

डा. मधु खन्ना, माइक्रोबायोलॉजी विभाग (वाइरोलॉजी यूनिट), वी.पी.चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 के अधीन डीएसटी-एसईआरबी प्रायोजित परियोजना "टारगेटेड एक्सोसोम्स मेडिएटेड सेल्युलर डिलीवरी: ए पोटेन्शियल अप्रोच फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट" में रिसर्च एसोसिएट-II (एक) के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

विवरण के लिए, कृपया संस्थान की वेबसाइट: www.vpci.org.in देखें। कोई आगे का परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा।

डा. मधु खन्ना

प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर

सीबीसी 17169/12/0024/2324

Recruitment in DST SERB Project

Applications are invited for the temporary post of **Research Associate II** in DST-SERB project, entitled, "**Targeted Exosomes mediated cellular delivery: A potential approach for vaccine development**", initially for a period of one year (extendable upto three years based on requirement and satisfactory performance). The educational and other qualification required for the post are as follows:

1. Research Associate II: One


Essential Qualification: PhD in any subject of life science/ Microbiology with at least one year research experience, after PhD, in molecular biology and tissue culture.

Salary: 49000 p.m. + 24%HRA

Age limit: 40 Year

Tenure of project: Three years

Eligible candidate may send their recent Bio data along with supporting documents to Professor Madhu Khanna, Department of Microbiology (Virology Unit), University of Delhi-110007 at **email ID: virologyunit.vpci@gmail.com** within two week of the publication of advertisement. Shortlisted candidates will be informed for the physical or online interview. No TA and DA will be provided to attend the interview.



- **Prof. Madhu Khanna**
Principal Investigator